

कार्यालय

कक्षा :-8

विषय : SCIENCE

विद्यार्थी का नाम :

संज्ञान्य से :- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बीरवाड़ा, केकड़ी (अजमेर) वि.ज. 53 (02-08 अक्टूबर, 2021 सप्ताह 13)

1- टेरीकॉट किन दो रेशों से मिलकर बनता है -

- 1☐☐ टेरिलीन व कपास
- 2☐☐ रेयॉन व रेशम
- 3☐☐ नायलॉन व कपास
- 4☐☐ नायलॉन व पॉलिएस्टर

2- राकेश को उसकी माँ ने गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी। आपकी राय में इसका कारण क्या हो सकता है ?

- 1☐☐ सूती कपड़े जल्दी धुल जाते हैं
- 2☐☐ सूती कपड़े जल्दी सूख जाते हैं
- 3☐☐ सूती कपड़े हल्के होते हैं
- 4☐☐ सूती कपड़े गर्मी में पसीना सोख लेते हैं

3- जन्तु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता?

- 1☐☐ माइटोकांड्रिया
- 2☐☐ हरित लवक
- 3☐☐ राइबोसोम
- 4☐☐ रिक्तिका

4- निम्न में से मसाले का सही युग्म है ?

- 1☐☐ हल्दी, लोंग
- 2☐☐ सौंफ, मूंगफली
- 3☐☐ कालीमिर्च, तिल
- 4☐☐ मिर्च, मूंगफली

5- सोनू ने मैग्नेशियम के तार को जलाया, इससे बनी राख में थोड़ा पानी मिलाकर विलयन बनाया। फिर उसने लाल लिट्मस पत्र द्वारा परीक्षण करने पर पाया कि वह नीला हो जाता है बताइये उस विलयन की प्रकृति क्या है ?

- 1☐☐ अम्लीय
- 2☐☐ क्षारीय
- 3☐☐ उदासीन
- 4☐☐ कोई नहीं

6- शानू को नींबू की शिकंजी पीने से कौन से विटामिन की प्राप्ति हुई ?

- 1☐☐ Vitamin A
- 2☐☐ Vitamin B
- 3☐☐ Vitamin C
- 4☐☐ Vitamin D

7- सोनू ने अपना स्वेटर जैसे ही उतारा उसके बाल खड़े हो गए। ऐसा किस बल के प्रभाव के कारण हुआ -

- 1☐☐ चुंबकीय बल
- 2☐☐ स्थिर वैद्युत बल
- 3☐☐ घर्षण बल
- 4☐☐ पेशीय बल

8- अनिल ने आलू की कलिकाओं को काट कर जमीन में बो दिया वह आलू की खेती करने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रहा है ?

- 1☐☐ अलैंगिक विधि
- 2☐☐ कायिक जनन
- 3☐☐ लैंगिक जनन
- 4☐☐ अनिषेक जनन

9- लघुपथन होने से परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से घर के विद्युत उपकरणों में आग लग सकती है। इस दुर्घटना से बचने के लिए आप क्या करेंगे?

- 1☐☐ फ्यूज तार को परिपथ में समांतर क्रम में लगाएंगे
- 2☐☐ फ्यूज तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाएंगे
- 3☐☐ आग को बुझाने का प्रयास करेंगे
- 4☐☐ इनमें से कोई नहीं

10- बारिश के दिनों में जलाशयों का जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे जल के उपयोग से बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। जल के शुद्धिकरण के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे ?

- 1☐☐ पानी उबाल कर पिए
- 2☐☐ ओ. आर. एस्. घोल का उपयोग करें
- 3☐☐ डॉक्टर से उपचार लें
- 4☐☐ उपर्युक्त सभी

कार्यालय

कक्षा :-8

विषय : HINDI


विद्यार्थी का नाम :

सौजन्य से :- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बीरवाड़ा, केकड़ी (अजमेर) विवज़ 53 (02-08 अक्टूबर, 2021 सप्ताह 13)

1- उपर्युक्त पोस्टर में क्या संदेश दिया जा रहा है ?

रक्तदान शिविर
दिनांक 24.11.2018 से 27.11.2018 तक

रक्तदान है प्राणी पूजा
इसके जैसा दान ना दूजा
रक्त दान करने से नहीं
होती शरीर में कमजोरी।
एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है।
मानव शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है।
आपका रक्त ब्लड बैंक में सुरक्षित रहता है।



रक्तदान	महादान	जीवनदान
आयोजक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वीर पुरा उदयपुर		प्रायोजक मानव सेवा समिति उदयपुर

- 1 रक्तदान
- 2 अंगदान
- 3 नेत्रदान
- 4 देहदान

2- क्या रक्तदान से कमजोरी होती है ?

- 1 हा
- 2 नहीं
- 3 आंशिक
- 4 अत्यधिक

3- रक्तदान शिविर में प्रायोजक है -

- 1 मानव सेवा समिति
- 2 रा. उ . मा. वि. वीर पुरा
- 3 कल्याण सेवा समिति
- 4 गो - रक्षा सेवा समिति

4- रक्तदान शिविर कितने दिन का रखा गया है ?

- 1 एक दिन
- 2 दो दिन
- 3 तीन दिन
- 4 चार दिन

5- उपर्युक्त बैनर में डॉक्टर्स की संख्या है-

- 1 1
- 2 2
- 3 3
- 4 4

6- रक्तदान शिविर में लिया गया रक्त कहाँ सुरक्षित रखा जाएगा ?

- 1 चिकित्सालय
- 2 ब्लड बैंक
- 3 घर
- 4 विधालय

7- रक्तदान करने की न्यूनतम आयु होती है -

- 1 18 वर्ष
- 2 19 वर्ष
- 3 10 वर्ष
- 4 21 वर्ष

8- किस दान को महादान कहा गया है ?

- 1 रक्तदान
- 2 अंगदान
- 3 नेत्रदान
- 4 देहदान

9- रक्तदान को जीवनदान कहा गया है क्योंकि -

- 1 यह व्यक्ति की आँखों को बचाता है
- 2 यह व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है
- 3 यह व्यक्ति को हँसमुख बनाता है
- 4 यह व्यक्ति के जीवन को बचाता है

10- स्वस्थ मानव शरीर में रक्त होता है लगभग -

- 1 5 लीटर
- 2 6 लीटर
- 3 7 लीटर
- 4 4 लीटर